



CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED
CAPITAL LIMITED
Registered & Corporate Office :- 502, Tower-A, Peninsula Business Park,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Circle Office :- 2nd Floor, 3B Pusa Road Rajendra
Place, New Delhi-110005

CORRIGENDUM
This is in reference to the demand notice advertisement published in this newspaper on 23/08/2022 against the borrowers account name as **Rajesh Kumar Singla** in which the name of the company was erroneously published as Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL) however it should be read as Capri Global Capital Limited. All other details will remain the same
Place : Ludhiana
Date : 25/08/2022
Sd/- (Authorised Officer)
For Capri Global Capital Limited (CGCL)



RANA SUGARS LIMITED
CIN: L15322CH1991PLC011537
Registered Office: SCO 49-50, Sector 8-C, Chandigarh- 160009
Website: www.ranasugars.com, E-mail: info@ranagroup.com
Tel.: 0172-2540007, 2549217, 2541904, 2779565, 2773422, FAX: 0172-2546809

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS REGARDING 30TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)
This is to inform that the 30th AGM of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 03.00 p.m. (IST) through VC/OAVM without the physical presence of the members in compliance with the applicable provisions of the Company Act, 2013 and rules made thereunder, read with General Circular No. 02/2022 dated 05th May 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/DIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) read together with other circulars issued by MCA/SEBI. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent in electrical mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants. The notice of AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website at www.ranasugars.com, website of Stock Exchanges (NSE and BSE) and on the CDCL's website at www.evotingindia.com. As per the MCA Circulars and the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member.
Manner of Registering/ Updating Email addresses-Members holding shares in dematerialised mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant Depositories through their Depository Participants. Members holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers to the Company's Registrars and Share Transfer Agent ("RTA"), Alankit Assignments Ltd., 205-208 Anarkali Market, Jhandewala Extension, New Delhi- 110055, Tel. No.:011- 42541234, 23541234, Fax - 011 - 23552001, Email-info@alankit.com and rtat@alankit.com, Website- www.alankit.com.
Manner of casting vote through e-voting- Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the members. The details will also be made available on the website of the Company. Share holders are requested to visit www.ranasugars.com for such details.
For Rana Sugars Limited
Sd/-
Gourav Kapoor
Company Secretary
Date: 24th August , 2022
Place: Chandigarh

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice
Tender No : Re T No.72/2022-23/SE/Q
JUM Pavithreswaram panchayath Phase II Package 2- supplying and laying various pipes, providing FHTC, construction of OHSR and other allied works.
EMD : Rs. 200000/- Tender fee : Rs. 10000/- + 1800/-
Last Date for submitting Tender : 14-09-2022 02:00 pm
Phone : 04742745293, Website : www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in
Superintending Engineer
PH Circle, Kollam

KWA-JB-GL-6-700-2022-23



TATA POWER
(Corporate Contracts Department)
The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road, Andheri East, Mumbai-400059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173941) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST
The Tata Power Company Limited Invites Expression of Interest (EOI) from eligible vendors for the following work tender:
"Services for Rail Mode Logistics and Unloading of Coal from rakes for Maithon Power Limited (MPL), Maithon, Jharkhand (Tender Ref: CC/FY23/AV/MPL Rail Logistics)"
For detailed Tender Notice including Scope, Pre-Qualification requirements, Tender fees, Bidding process etc., please visit Tender section of our website (URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>). Eligible bidders willing to participate may submit their EOI along with the tender fee latest by **5th September 2022 (Monday)**.

KASHIPUR HOLDINGS LIMITED
CIN: U67120UR1996PLC020938
Reg. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur- 244713
Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Ph: 05947-269500, Fax: 05947-275315

NOTICE REGARDING 25th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)
Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on **Monday, 19th September, 2022 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")** facility without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021 and 5th May, 2022 respectively ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs. In accordance with the MCA Circulars, the Notice of the 25th AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent only by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company or their respective Depository Participant ("DP"). The Notice of the 25th AGM will also be available on Central Depository Services (India) Limited ("CDCL") website at www.evotingindia.com. In case you have not registered your email address with the Company/DP, please follow below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2021-22:

Physical Holding	Members are requested to register/update their email addresses by providing the necessary details i.e. Folio no., Name of Shareholder, scanned copy of the share certificate (front & Back), PAN (self-attested copy), Aadhar (self-attested copy) at admin@mcsregistrars.com or preeti.choudhary@indiaglycols.com along with the copy of the signed request letter.
Demat Holding	Members are requested to register/update their email addresses with the respective Depository Participant

Members can join and participate in the 25th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 25th AGM through VC/OAVM and the manner of participation through remote e-voting and e-voting system of CDCL at the 25th AGM shall be provided in the Notice of the 25th AGM. The Notice shall also contain the instruction with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or their respective Depository Participant. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members may note that the Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 9/- per Preference share (i.e. @ 9%) of face value of Rs. 100/- each for the financial year ended 31st March, 2022, subject to the approval of the shareholders at the ensuing AGM of the Company. The dividend will be paid/dispensed within 30 days from the date of the ensuing AGM of the Company to the members whose names appear in the Register of Members as on cut-off date i.e. Monday, 12th September, 2022.


Pursuant to MCA General Circular 20/2020 dated 5th May, 2020 Companies are directed to credit the dividend of the shareholders directly to the bank accounts of the shareholders using Electronic Clearing System. Accordingly, Members are requested to provide/update their bank details with the respective depository participant for the shares held in dematerialized form and with the RTA in respect of shares held in physical form.

Further, in pursuance to the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders, therefore, the Company is required to deduct tax at source at the time of making payment of dividend at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments therefor.

In case of any query, a member may send an e-mail to the RTA at admin@mcsregistrars.com or Company at preeti.choudhary@indiaglycols.com.

For Kashipur Holdings Limited
Preeti Choudhary
Company Secretary

Place: Noida
Date: 24.08.2022



BCL Industries Limited
Regd. Office: Hazi Rattan Link Road, Post Box No. 71, Bathinda-151001 Ph.: 0164-2240163, 2240443, 2211628
Fax: 0164-5003638, Website: www.bcl.ind.in
Email: bcf@mittalgroup.co.in, CIN: L24231PB1976PLC003624

NOTICE
Notice is hereby given that 46th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Tuesday, the 27th day of September, 2022 at 3.00 P.M. through Video-Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")** without physical presence of the members at a common venue, to transact the business specified in the Notice convening the said AGM, in view of the ongoing Covid-19 pandemic and in compliance with the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, general circular no. 02/2022 dated May 05, 2022 and all other relevant circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), read with SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are mentioned in the Notice dated 13th August, 2022, convening the AGM.

In compliance with the relevant MCA and SEBI Circulars, copies of the Notice of 46th AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2022 are being sent to all to the members whose email IDs are registered with the Depositories/RTA to the Company. In line with the MCA Circulars, physical copies of the AGM Notice are not being dispatched and the AGM Notice alongwith the Annual Report shall be sent only through email.

Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses and mobile numbers are requested to register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) Link Intime (India) Private Limited at <https://linkintime.co.in/emailreg/emailregister.html> to get their email address and mobile number registered temporarily. In the case of Shares held in Demat mode, the shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

The Notice of 46th AGM and Annual Report for FY ended 31st March, 2022 will also be made available on Company's Website i.e. www.bcl.ind.in, website of Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com, and NSE at www.nseindia.com and on the website of RTA i.e. at <https://www.linkintime.co.in>.

The Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. The remote e-Voting period commences on Saturday, the 24th day of September, 2022 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday, the 26th day of September, 2022 (5.00 p.m. IST). During this period, Members of the Company, holding shares both in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) i.e. Tuesday, the 20th day of September, 2022 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Further, the facility of e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have already cast their votes through remote e-voting will be entitled to attend the AGM but shall not be entitled to vote again.


The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 21st day of September, 2022 to Tuesday, the 27th day of September, 2022 (both days inclusive)..

The instruction for attending the meeting through VC/OVAM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided in the Notice convening the AGM. Members participating through VC/OVAM facility shall be counted for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or write an email to enquiries@linkintime.co.in or at contact :- Tel : 022 - 49186000. Any query/grievance may also be addressed to Mr. Gurinder Makkar, Company Secretary with respect to the voting including voting by electronic means at: Email id: cs_bcl@mittalgroup.co.in or at contact No. 01642240163.

For BCL Industries Limited
Sd/-
Rajinder Mittal
Mg. Director
DIN-00033082

Place: Bathinda (Pb.)
Date: 24-08-2022



IIFL SECURITIES
CIN L19999MH1996PLC132983
Regd Office: IIFL House Sun InfoTech Park Road No.16V Plot No.B-23, MIDC
Thane Industrial Area Wagle Estate Thane - 400604
Tel: (91 -22)3929 4000 / 4103 5000/ 62727000 Fax (91 -22 2580 6654
E-Mail id - Secretarial@iifl.com Website:- www.iiflsecurities.com


PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given to general public and specifically to the clients/ customers of IIFL Securities Ltd., its group & associate companies that Ms. SHAH PRACHI PRITAM residing at FLAT NO. C 412, GANGA OSIAN PARK, S NO. 25/1-2, NEAR RAJAS SOCIETY, KATRAJ, 411046 Pune Maharashtra, who was our Authorised Person having AP Code Authorized Person Registration No:- BSE Cash/Fo/Cd/Co- AP01017901122809 Dated:- 14/07/2021/ NSE Cash/Fo/Cd/Co- AP149311121 Dated :- 14/07/2021 MCX :- MCX/AP/145504 Dated:- 13/07/2021 NCDEX:- 124466 Dated:- 13/07/2021 having its office at FLAT NO. C 412, GANGA OSIAN PARK, S NO. 25/1-2, NEAR RAJAS SOCIETY, KATRAJ, 411046 Pune Maharashtra branch (hereinafter referred as "the AP"), had committed various unethical acts and violated the Company's Code of Conduct, Rules, Policies and directions as applicable from time to time. Therefore termination notice dated 04/07/2022 has already been issued to the said AP.

In first week of December, it has come to our knowledge that the said AP had unethical acts and violated the company's code of conduct rules, policies, provide document to take signature from client. We state that IIFL Securities Ltd., its group & associate companies, are not offering any scheme with assured return either to general public or the clients/ customers

In this regard also note SEBI vide its Circular CIR/MIRSD/16/2011 dated 22nd August 2011 issued the Guidance Note which clearly state that the payment must be made in broker's bank account and not to sub broker or agent's account. Further, the Risk Disclosure Document also clearly explained that the return in security market is related to volatility of various factors and cannot be assured.

We therefore hereby caution the general public including our clients/ constituents that no such scheme was ever introduced by the IIFL Securities Ltd., its group & associate companies and amount paid to the said AP was never received by the Company and hence any person dealt with the said AP in respect of said scheme was at their own risk and consequences.


For any information/request/queries/placing orders we request you to contact on 022-40071000/ Email Id - cs@iifl.com.



Union Bank of India
Regional Office :SCO 64-65, Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh

[RULE 8 (1)] POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)
Whereas the undersigned being the Authorized Officer for Union Bank of India, Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) & 13(12) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice as briefed under calling upon the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) to repay the amount mentioned in the notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) having failed to repay the Amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property/ies described herein below in exercise of the powers conferred on him/ her under section 13(4) of said Act read with Rule 8 of the Security interest Enforcement Rules on the date mentioned there against.
The Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of the Union Bank of India, for the amount and interest thereon.
The Borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset(s).

Name of Branch Borrower(s)/ Guarantor(s)	Description of the Property/ies	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
BO : Telephone Exchange, Yamuna Nagar	Security: Land and Building Residential belonging to Surinder pal (Guarantor) (Owner of the Property), situated at Plot No. 277, Ward No. 10, Mohalla Saidan, Shahbad Markanda, Kurukshetra, 136135.	15.03.2022	23.08.2022	Rs. 30,61,110.65 Plus interest and other charges thereon
Borrower : Radha Krishna Construction Proprietor Mr. Sahil Ahuja S/o Surinder Pal ADD: Opposite SBI Bank Near Buria Chowk Chhachhrauli Road, Jagadhari, District Yamanagar, Haryana, PIN CODE: 135001. Guarantor: Sh. Surinder Pal S/o Chokha Ram, ADD: House No. 248/10, Mohalla Saidan, Shahbad, PIN CODE: 136135.	Security: Land and Building Residential belonging to M/s SKM Poultries measuring 29 Kanal 06 Marla bearing Khewat/ Khatoni No. 429/531,532 (at present 493/577, 578) Khasra No. 88/9/3(0-9), 10/1 (7-11) 11(8-0), 20(8-0), 21(8-0), 89/16(8-0), 23min(6-12), 24min(7-11), 25(8-0), 95/3(8-0), 4(8-0), 95/5(8-0), 89/23min(8-0), 24min(0-9), Pieces 14, being 293/870 share out of land measuring 87 Kanal situated at Village Mauli, District Panchkula in the name of the firm M/s SKM Poultries and bounded by : East : Othes Property, West : Road, North : Agriculture Land, South : Others Property This Notice supersedes previous Notice u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002 dated 18.09.2021 and hence said notices is to be treated as withdrawn.	18.05.2021	22.08.2022	Rs. 4,08,33,592/- Plus interest and other charges thereon
BO : Sector 8, Panchkula Borrower : 1. M/s SKM Poultries through its Partners Mr. Rajneesh Garg & Mrs. Mamta Garg, House No. 136, Sector 9, Panchkula, Haryana 134109. 2. Mr. Rajneesh Garg, House No. 136 Sector 9, Panchkula Haryana- 134109. 3. Mrs. Mamta Garg, House No. 136 Sector 9, Panchkula Haryana- 134109.	Security: Land and Building belonging to M/s SKM Poultries measuring 29 Kanal 06 Marla bearing Khewat/ Khatoni No. 429/531,532 (at present 493/577, 578) Khasra No. 88/9/3(0-9), 10/1 (7-11) 11(8-0), 20(8-0), 21(8-0), 89/16(8-0), 23min(6-12), 24min(7-11), 25(8-0), 95/3(8-0), 4(8-0), 95/5(8-0), 89/23min(8-0), 24min(0-9), Pieces 14, being 293/870 share out of land measuring 87 Kanal situated at Village Mauli, District Panchkula in the name of the firm M/s SKM Poultries and bounded by : East : Othes Property, West : Road, North : Agriculture Land, South : Others Property This Notice supersedes previous Notice u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002 dated 18.09.2021 and hence said notices is to be treated as withdrawn.	18.05.2021	22.08.2022	Rs. 4,08,33,592/- Plus interest and other charges thereon
Date: 24.08.2022		Place: Chandigarh		Authorised Officer




RBL BANK
apna ka bank
RBL BANK LIMITED
CIN: L65191PN1943PLC007308
Registered Office: 1st Lane, Shahupuri, Kolhapur - 416 001. Tel: +91 231 6650214
Fax: +91 231 2657386 | Website: www.rblbank.com | E-mail: investorgrievances@rblbank.com

NOTICE TO THE MEMBERS REGARDING 79th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS
Notice is hereby given that the Seventy Ninth (79th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of **RBL Bank Limited** ("the Bank") is scheduled to be held on Wednesday, September 21, 2022 at 11:30 a.m. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM"/), to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM.
The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular no. 14/ 2020 dated April 8, 2020, Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular no. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular no. 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular no. 02/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide its Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), have permitted holding of the AGM through VC/OAVM. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), MCA Circulars and SEBI Circulars, the AGM of the Bank is being held through VC/OAVM. Hence, the Members can attend and participate at the 79th AGM through VC/OAVM.
The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/Depositories/ Registrar and Transfer Agents ("RTA") in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. The Notice of the Seventy Ninth (79th) AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Bank's website <https://ir.rblbank.com> for download. The Notice can also be accessed from the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice will also be disseminated on the website of CDCL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
Process for Shareholders whose email addresses/Mobile No. are not registered for obtaining login credentials for Remote e-Voting/e-Voting and attending the AGM through VC/OAVM:
• For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to investorgrievances@rblbank.com or mt.helpdesk@linkintime.co.in.
• For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
• For Individual Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.
Manner of Casting vote through e-Voting:
• In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.
• The Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the AGM Notice through Remote e-Voting as well as the e-Voting system during the AGM.
• Detailed procedure for remote e-Voting/e-Voting will be provided in the Notice of AGM. The details will also be made available on the website of the Bank.
• The login credentials for casting the votes through e-Voting shall be made available to the Members through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above.
Further, during FY2021-22 the Bank had incurred losses, accordingly, the Directors did not recommend dividend on equity shares for FY2021-22.

For RBL Bank Limited
Niti Arya
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 24, 2022





WHAT'S ON PAPER MATTERS.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

Business Standard

Insight Out

 bsindia

 bsindia

business-standard.com

Adfactors 250

2 कंपनी समाचार


खबरों में रहे स्टॉक



कंपनी के बोर्ड ने हैप्पिली अनेमैरिड मार्केटिंग में निवेश पर सहमति जताई

₹ **4,267.5** पिछला बंद भाव
₹ **4,417.9** आज का बंद भाव
3.5 % ▲


अरविंदो फार्मा



मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट इंजेक्टेबल सस्पेंशन के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली

₹ **559.6** पिछला बंद भाव
₹ **560.4** आज का बंद भाव
0.13 % ▲


टीवीएस मोटर



एनकार्स मोबिलिटी मिलेनियल सॉल्यूशंस में 48.27 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी

₹ **955.2** पिछला बंद भाव
₹ **958.5** आज का बंद भाव
0.3 % ▲


भारत गियर्स



बोर्ड ने 1:2 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की योजना को मंजूरी दी

₹ **178.2** पिछला बंद भाव
₹ **181.3** आज का बंद भाव
1.8 % ▲

टाटा मोटर्स



7.25 मेगावॉट की सौर परियोजना के लिए टाटा पावर संग विद्युत खरीद करार किया

₹ **460.2** पिछला बंद भाव
₹ **463.1** आज का बंद भाव
0.6 % ▲

संक्षेप में

टीवीएस ने ड्राइवएक्स में 48 फीसदी हिस्सा खरीदा

वाहन कंपनी टीवीएस मोटर ने बुधवार को नारायण कार्तिकेयन के स्वामित्व वाले दोपहिया स्टार्टअप ‘ड्राइवएक्स’ में 48 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण 85 करोड़ रुपये में करने की घोषणा की। कार्तिकेयन देश के पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि वह एनकेआरएस मोबिलिटी मिलेनियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एनएमएमएसपीएल) में 48.27 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह प्राथमिक और द्वितीयक निवेश के माध्यम से ‘ड्राइवएक्स’ ब्रांड के तहत परिचालन करती है। कार्तिकेयन द्वारा स्थापित ड्राइवएक्स, दोपहिया मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को पट्टे (लीज) पर देने और पुरानेत्री मोटरसाइकिलों एवं स्कूटरों की बिक्री और वितरण का काम करती है।

भाषा

फ्यूचर एंटरप्राइजेज के खिलाफ याचिका दायर

कर्ज में डूबी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को परिचालन से जुड़ा ऋण देने वाली एक इकाई ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर कर कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज के खिलाफ हालिया याचिका रिटेल डिजेल्ज इंडिया ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ में दायर की है। इसमें कंपनी पर 4.02 करोड़ रुपये की चूक का आरोप लगाया गया है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज ने मंगलवार शाम को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। इसमें कंपनी ने कहा, ‘एनसीएलटी में ई-फाइलिंग से इस तरह के आवेदन की पुष्टि हुई है।

भाषा

सोना 274 रुपये, चांदी 448 रुपये मजबूत

वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती के बीच दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को बहुमूल्य धातु के भाव 274 रुपये चढ़कर 51,909 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। एचडीएफसी सिन्क्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,635 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 448 रुपये उछलकर 55,682 रुपये हो गई।

भाषा

स्ट्रेट्स ऑसेंट रिझोल्यूशन ग्रुप, कॉर्पोरेट सेंटर,
2 री मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई – 400005

**ई-नीलामी के माध्यम से पात्र प्रतिभागियों
(अनुमत् एआरसी/एनबीएफसी/बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं) को
स्ट्रेट्स लोन एक्सपोजर का हस्तांतरण**

भारतीय स्टेट बैंक, ₹ 102.30 करोड़ (केवल रैं एक सौ दो करोड़ तीस लाख) के बकाया मूलधन के साथ 1 (एक) खाते के स्ट्रेट्स लोन एक्सपोजर के हस्तांतरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक/नियमकों द्वारा जारी लागू नियमों के अधीन, ई-नीलामी के माध्यम से ‘जहाँ है जैसा है’ और ‘जैसा है जो है’ और दयित्वरहित आधार पर पात्र प्रतिभागियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईडोआई) आमंत्रित करता है.

सभी इच्छुक पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे ‘रुचि की अभिव्यक्ति’ के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें और गैर-प्रकटीकरण समझौते के निष्पादन के बाद, यदि पहले से ही निष्पादित नहीं किया गया है (वेब-नोटिस में उल्लिखित समयसीमा के अनुसार), तो ई-मेल आईडी dgm_sr@sbi.co.in पर संपर्क करें. अधिक जानकारी (वेब नोटिस) के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi> पर जाएं और in the news>Auction Notice>ARC AND DRT लिंक पर विलक करें.

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने पास <https://bank.sbi> (in the news>Auction Notice>ARC AND DRT लिंक पर विलक करें) पर शुद्धिपन अपलोड करके बिना कोई कारण बताए प्रस्तावित ई-नीलामी को आगे न बढ़ाने और ई-नीलामी की तारीख, किसी भी नियम और शर्तों को किसी भी स्तर पर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

स्थान: मुंबई

द्वारा जारी

तिथि: 25.08.2022

उप- महाप्रबंधक (एआरसी)

<div><div></div>राणा शुगर्स लिमिटेड</div>
सीआरएफ़ एन10322एफएन1081एलसीएन11537
पंजीकृत कार्यालय एलसीओ 44-50, शेयर 8-सी, बडोई-180 009
वेबसाइट www.ranasugars.com , ई-मेल info@ranasugroup.com
फोन 0172-2540007, 2546217, 2541004, 2776855, 2776222 , फैक्स 0172-2546809
वित्तीय कॉन्फ्रेसिंग (सीसी)/अन्य ऑफिश-विजुअल जरिए (ओएस्वीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक साधारण सभा के संबंध में शेयरधारकों को नोटिस
एवंद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 30वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों के लागू सभी प्रावधानों, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एनसीए) द्वारा जारी सामान्य परिचय सं. 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और भारतीय प्रभिमृति और विनियम बोर्ड (सीबी) द्वारा जारी परिचय सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/DIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, एनसीए/सेबी द्वारा जारी अन्य परिचयों के साथ पठित, के अनुपालन में सदस्यों की मौलिक उपस्थिति के बिना सीसी/ओएवीएम के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को उप. 03.00 (भा.मा.स.) बजे आयोजित की जायेगी।
उपर्युक्त परिचयों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों को ई-मेल से भेजे जायेंगे जिन्हके ई-मेल पते कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों के पास पंजीकृत हैं। एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट: www.ranasugars.com , स्टिक एक्सचेंजों (एनएसई और शेयरस्ड) की वेबसाइटों और सीडीएसएल की वेबसाइट: www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगा।
एनसीए परिचयों और सेबी परिचय के अनुसार एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की कोई मौलिक प्रति किसी सदस्य को नहीं भेजी जायेगी।
ईमेल पत्तों के पंजीकरण/अवतार का तरीका —अमौलिक मोड में शेयरों के धारक सदस्यों से अनुरोध है कि अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों के माध्यम से अपने संबंधित डिपोजिटरियों के पास पंजीकृत करें। मौलिक मोड में शेयरों के धारक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर कंपनी पंजीकरण और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आर्टीए') के माध्यम से, इनमेंट लि, 205-208, अनामकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सप्रेसवे, नई दिल्ली-110055, फोन नं. 011-42541234, 23541234, फैक्स-011-23552001, ईमेल-info@alankit.com और info@alankit.com , वेबसाइट— www.alankit.com को प्रस्तुत करें।
ई-मददान माध्यम से मतदान करने का तरीका —सदस्यों को एजीएम की सूचना में यथानिहित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से अपने मतदान दृष्टी से ही करने का अवसर होगा। अग्री किंग मोड, उचित मोड में शेयरों के धारक सदस्यों और सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए दृष्टी से मतदान करने का तरीका सदस्यों को नोटिस में प्रदान किया जायेगा। हिवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। शेयरधारकों से ऐसे किसी विवरण के लिए वेबसाइट www.ranasugars.com देखने का अनुरोध किया जाता है।
हिरे राणा शुगर्स लिमिटेड
हस्ता. /—
गौरव कपूर
कंपनी सचिव
दिनांक: 24 अगस्त, 2022
स्थान : चंडीगढ़

POONAWALLA
FINCORP

पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड

(पूर्ववर्ती मैगमा फिनकोर्प लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: 601, छठवीं मंजिल, जीको पद आईटी पार्क, क्रमांक 79/1, घोरामंडी, मुंबई-411036

परिशिष्ट IV(नियम 8(1) देखें)

कच्चा सूचना
(अवल संपत्ति के लिए)

चूंकि, उपरोक्त कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय के पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड (पूर्ववर्ती मैगमा फिनकोर्प लिमिटेड) के नाम से ज्ञात) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभुतिकरण एवं वित्तीय संस्थियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभुति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे यहां बाद में "रक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभुति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत मांग सूचना निम्नलिखित दिनांकित जारी की थी, जिसमें नीचे उल्लेखित कर्जदारों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में पिछले होने के कारण, एतद्वारा कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभुति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर नियंत्रण 23 अगस्त, 2022 को कब्जा कर लिया है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सीढ़ा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सीढ़ा संबंधित रकम तथा उस व्याज की राशि हेतु पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड (पूर्ववर्ती मैगमा फिनकोर्प लिमिटेड) के नाम से ज्ञात) के प्रमाण का विषय होगा।

प्रत्याभुत सम्पत्ति को मुक्त करने के संबंध में उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। कच्चा में ली गई सम्पत्ति का विवरण नीचे उल्लेखित है:

क्र. सं.	कर्जदारों के नाम	सम्पत्ति का विवरण	कच्चा की तारीख	संविधिक मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना में तारीख रु.
01	भी ओम, कुमुप	कलानीखुर्द तहसील कलानपुर जिला रोहतक में स्थित शेखर नं. 963, खलीनी नं. 1123, किला नं. 81/5/32 (1-4), परिमाण 665 वर्ग गार्ड की विपरी दीवार सही सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सार्वनीय हिस्सा।	23.08.2022	21.03.2022	ऋण नं.: एएएल/0036/एच/19/000027 दिनांक 21.03.2022 को मुगुलेय रु. 30,22,184.15 (रुपये तीस लाख बाईस हजार सात सौ तिरसठ एवं पैसे पाँच मात्र) साथ में वसूली की तारीख से 15.30% की दर से व्याज।
02	मीरज इंटरलॉकिंग टाटल्स उद्योग, मीरज, सुरेश कुमार, राजबाला	शेखर नं. 231, खलीनी नं. 271 रेक्ट तथा किला नं. 392/1/3/32/1, 1/3/32/2, 1/3/32/4, 1/3/32/5, मीरजा मोहर तहसील एवं जिला रोहतक में स्थित प्लॉट 106.33 वर्ग गार्ड परिमाण की विपरी पर रव्ही गार्ड सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सार्वनीय हिस्सा मोहदी पुर्न-रास्ता, पश्चिम-राजबाला का प्लॉट, उत्तर-अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण-सुरेश कुमार का प्लॉट।	23.08.2022	02.04.2022	ऋण नं.: एएएल/0036/एच/19/000004 दिनांक 02.04.2022 को मुगुलेय रु. 35,11,763.20 (रुपये पैंतीस लाख ग्यारह हजार सात सौ तिरसठ एवं पैसे बीस मात्र) साथ में वसूली की तारीख से 15.00% की दर से व्याज।

अधिकृत अधिकारी

पूनावाला फिनकोर्प लिमिटेड

(पूर्व में मैगमा फिनकोर्प लिमिटेड) के नाम से ज्ञात) (हस्ताक्षर)

स्थान : रोहतक
तारीख : 25.08.2022

चंडीगढ़ | गुरुवार, 25 अगस्त 2022

बिज़नेस स्टैंडर्ड

इंडिगो : लागत की चुनौती

राम प्रसाद साहू

मुंबई, 24 अगस्त

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) के शेयर में जुलाई की शुरुआत से अब तक करीब 23 फीसदी की तेजी आई है। इस शेयर को बढ़ते प्रतिफल और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि की उम्मीदों से बल मिला।

मौसमी तौर पर कमजोर तिमाही में भी उच्च प्रतिफल बरकरार रहा लेकिन जुलाई में उसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 59 फीसदी से कम रह गई। हालांकि ईंधन कीमतों में तेजी के कारण लागत बढ़ने और तगड़ी प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर लाभ की मात्रा के बारे में ब्रोकरेज फर्मों की अलग-अलग राय है।

अधिक मूल्य और क्षमता में कमी के कारण प्रतिफल के मोर्चे पर इंडिगो को फायदा हो रहा है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (केआईई) के विश्लेषक आदित्य मोंगिया और टीना विरमानी ने इंडिगो के प्रबंधन का हवाला देते हुए कहा है कि कमजोर समझी जाने वाली दूसरी तिमाही में प्रतिफल मौसमी रूझानों के मुकाबले बेहतर है। इससे पता इंडिगो द्वारा किराया बढ़ाए जाने के बाद अधिक प्रतिफल देने में ब्राहकों की सहजता और प्रतिस्पर्धा की झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि ये दोनों रूझान विमानन क्षेत्र के लिए सकारात्मक हैं।

कंपनी के लिए प्रतिफल जून



तिमाही में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया क्योंकि उस दौरान मांग मौजूद तिमाही के मुकाबले काफी मजबूत थी।

इस प्रकार प्रतिफल के मोर्चे पर प्रदर्शन बाजार के अनुमान से बेहतर रहा। क्रमिक आधार पर प्रतिफल में 19 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि कंपनी ने लोड फैक्टर की कीमत पर राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

माचं तिमाही के दौरान लोड फैक्टर 76.5 फीसदी था जो जून तिमाही में बढ़कर 79.6 फीसदी हो गया। हालांकि 2019-20 की पहली तिमाही (कोविड पूर्व स्तर)

के मुकाबले मौसमी यात्रा 89 फीसदी कम रही। उद्योग में सीमित क्षमता वृद्धि के कारण प्रतिफल और यात्री लोड फैक्टर को बल मिला। वित्त वर्ष 2024 में बढ़त के साथ विस्तार के आसार हैं। बाजार की नजर टाटा समूह पर होगी जिसने एयर इंडिया के बड़े के लिए आक्रामक रणनीति तैयार की है।

केआईई ने विमानन क्षेत्र का आकर्षक रेटिंग दी है लेकिन एक्सिस सिन्क्योरिटीज का मानना है कि प्रतिफल एवं प्रतिस्पर्धा के मोर्चे पर इंडिगो के लिए अनुमान कहीं अधिक आशावादी है।

वैकल्पिक ईंधन वाली कारों को दें बढ़ावा

पृष्ठ 1 का शेप

सामान्य कार बाजार की बात करते हुए भार्गव ने स्वीकार किया कि 5 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों का बाजार 2018-19 में 25.8 फीसदी था, जो वित्त वर्ष 2022 में घटकर महज 10.3 फीसदी रह गया। इसी तरह 7.50 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार का बाजार 60 फीसदी से घटकर 43 फीसदी रह गया। उन्होंने कहा कि बीएस-4 के बजाय बीएस-6 उत्सर्जन मानक अपनाने के नियम से कारों के दाम काफी बढ़ गए हैं और एंट्री लेवल की कार भी महंगी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कीमत तो सभी तरह की कारों की बढ़ी है मगर प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा असर किफायती कारों पर पड़ा है। इसकी वजह से लाखों खरीदारों के लिए कार खरीदना अब किफायती नहीं रह गया है।

मगर भार्गव को इस बाजार में अब भी बहुत संभावनाएं दिखती हैं। उन्होंने कहा, ‘यह जानने के लिए सर्वेक्षण कराने की जरूरत नहीं है कि देश में 20 करोड़ दोपहिया ग्राहक हैं और हर साल 2 करोड़ दोपहिया वाहन बिकते हैं। ऐसे में एंट्री लेवल की या छोटी कार खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों का बहुत बड़ा बाजार है।’ उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य देश में निजी परिवहन के लिए इतनी बड़ी संख्या में दोपहिया नहीं चलाए जाते। ये सभी लोग किफायती कार खरीदने पहुंच सकते हैं। भार्गव ने कहा कि आने वाले वर्षों में अगर देश की वृद्धि दर 8 फीसदी रहती है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और निम्न मध्य वर्ग के ग्राहक थोड़ा दाम बढ़ने के बावजूद छोटी कार खरीदने में सक्षम हो सकते हैं। मगर इसमें कुछ समय लगेगा। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में कुल कार बिक्री में 15 लाख रुपये से ऊपर की कारों की हिस्सेदारी करीब 15 फीसदी रही और 5 से 10 लाख रुपये की कारों की हिस्सेदारी 56 फीसदी रही है।

सवाल जवाब

पहले कलपुर्जा विनिर्माताओं को बुलाना जरूरी

जापान की प्रमुख कार विनिर्माता सुजुकी को संयुक्त उद्यम के लिए भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए 40 साल हो चुके हैं। मारुति सुजुकी के नाम से स्थापित इस संयुक्त उद्यम से सरकार 2013 में बाहर हो चुकी है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने सुरजीत दास गुप्ता के साथ बातचीत में भारत के वाहन क्षेत्र में बदलाव की यात्रा और उस अनुभव से आज के विनिर्माण क्षेत्र के लिए सबक आदि विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश:

मारुति सुजुकी की कहानी जगजाहिर है। आत्मनिर्भर भारत के जरिये विनिर्माण क्षेत्र को रफ्तार देने में इससे क्या सबक लेना चाहिए?

मुझे लगता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं उसे समझने की जरूरत है और वह एक प्रमुख एवं बुनियादी बात है। यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो आपको जमीनी स्तर पर उचित अनुभव होना चाहिए कि उपभोक्ता क्या चाहते हैं, न कि हम जो सोचते हैं या जो पश्चिमी बाजारों में हो रहा है उसे दोहराना चाहिए। हमारा बाजार काफी अलग है। हमारे यहां दोपहिया वाहनों का एक बड़ा बाजार है जहां लोग निजी आवागमन के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। ऐसे ग्राहक अपने वाहनों को अपग्रेड करना चाहते हैं। हमारे ग्राहक भी अलग हैं। किसी उत्पाद के संबंधी में हमारा निर्णय बाजार सर्वेक्षण पर आधारित होता है। इससे हमें पता चलता है कि उनकी परिवहन आवश्यकताएं क्या हैं।

देश मोबाइल उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विनिर्माण क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की कोशिश रहा है। इस संबंधी में आपका क्या अनुभव रहा है?
जब हमने वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो हमने अपने वेंडरों को भागीदार के रूप में देखा जो इस देश में कभी मौजूद ही नहीं थे। हमारा संबंध ऐसा था कि आपूर्तिकर्ता लागत कम करने, गुणवत्ता में सुधार करने, खामियों को दूर करने और इन्वेंट्री को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के प्रयास करेंगे जबकि हम इन उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए हम उन्हें प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रियाओं को उन्नत करने में उनकी मदद करेंगे।

क्या लागत को नियंत्रित करने से कंपनी को मदद मिली? मौजूदा कंपनियों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
हम दोनों साझेदारों ने शुरुआती निवेश के बाद आंतरिक संसाधनों को पूरी तरह विकसित किया है। आज हमारे पास 41,000 करोड़ रुपये का नकदी

क्या सही साझेदार को चुनना एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है?

मुझे लगता है कि यह काफी महत्वपूर्ण है। कारणों के बारे में विस्तार से बताते हुए कि हमने सोचा कि सुजुकी सही मेल था। मुझे याद है कि फाइल में लिखा गया था कि यह भले ही एक छोटी कंपनी है लेकिन उसकी संस्कृति महत्वाकांक्षी, अधिक सुलभ, मितव्ययी और कम लागत एवं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की थी। उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिला।

आपने जापानी मॉडल को क्यों नहीं दोहराया?
हमने महसूस किया कि हम एक ही मॉडल का कट-पेस्ट और उपयोग नहीं कर सकते। हमें इसमें भारत के लिए उपयुक्त संशोधन करना पड़ा जैसे श्रमिकों में विश्वास और भरोसा पैदा करना। चूंकि जापान में मजबूत अनुशासन और संस्कृति की समानता के कारण वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। भारत में, गांवों से आने वाले नए श्रमिकों और वरिष्ठ प्रबंधन के बीच बड़ा अंतर रहा है। भले ही , यह विश्वास का मुद्दा था।

कमिंस इंडिया को मांग से दम

राम प्रसाद साहू

मुंबई, 24 अगस्त

कमिंस इंडिया का शेयर जून के अपने निचले स्तर से लगातार बढ़त दर्ज कर रहा है। उसमें अब तक 27 की बढ़त दर्ज की जा चुकी है। इस शेयर को जून तिमाही (जून 2023 की पहली तिमाही) में दमदार प्रदर्शन के अलावा बेहतर मांग और मार्जिन में सुधार की उम्मीदों से रफ्तार मिल रही है। कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने इसके लिए अपने आय अनुमान को बढ़ा दिया है। जबकि कुछ अन्य इस शेयर के मूल्य में जबरदस्त तेजी और मार्जिन में सुधार की सुस्त रफ्तार को देखते हुए कहीं अधिक सतर्क हैं। मांग परिदृश्य इस शेयर के लिए काफी महत्त्वपूर्ण कारक होगा। कंपनी ने कहा है कि दमदार घरेलू और निर्यात मांग के कारण कुल मांग में तेजी बरकरार है। जहां तक

घरेलू बाजार का सवाल है तो औद्योगिक कारोबार के चुनिंद क्षेत्रों में तेजी दिखा रही है। डीजल जेनसेट बाजार के अधिकतर क्षेत्रों से वृद्धि को रफ्तार मिल रही है। फार्मा, बायोटेक, रियल्टी, रेलवे, दूरसंचार, खनन और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्र मांग को गति दे रहे हैं।

मजबूत मांग के बदल पर तिमाही के दौरान कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 42 फीसदी और क्रमिक आधार पर 13 फीसदी बढ़कर 1,687 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के राजस्व में 71 फीसदी का योगदान करने वाली घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 36 फीसदी की वृद्धि हुई जबकि निर्या